

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/प्रेस.नोट/6/2017

दिनांक: 07 जनवरी, 2017

## प्रेस नोट

**विषय:- आयोग द्वारा जागरूकता प्रेषकों की यह सुनिश्चित करने के लिए तैनाती कि आगामी विधान सभा निर्वाचनों में कोई भी मतदाता न छूटे।**

1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त डा. नसीम ज़ैदी, ने यह सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता प्रेषकों की भूमिका पर बल दिया कि आयोग का यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड, तथा उत्तर प्रदेश की राज्य विधान सभाओं के आगामी साधारण निर्वाचनों में यह लक्ष्य प्राप्त किया जाए कि 'कोई भी मतदाता न छूटे'।
2. वे भारतीय सूचना सेवा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे जिन्हें 06 जनवरी, 2017 को विज्ञान भवन में आयोग द्वारा गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड, तथा उत्तर प्रदेश की विधान सभा के साधारण निर्वाचनों के लिए जागरूकता प्रेषकों के रूप में उनकी भूमिका के संबंध में तैनात किया गया है।
3. डा. ज़ैदी ने यह भी निदेश दिया कि जिला निर्वाचन अधिकारी न्यूनतम 10% टर्नआउट वाले मतदान केन्द्रों की पहचान करेंगे तथा इन मतदान केन्द्रों में कम टर्नआउट होने के कारणों का पता लगाएंगे और प्रेषकों के आगमन पर उनसे जिला स्वीप योजना सहित अन्य विवरणों को साझा करेंगे।
4. उन्होंने प्रेषकों को यह भी निदेश दिया कि वे अपने परिनियोजना के समाप्त होने पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सूचित करें ताकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए सूचित किया जा सके।
5. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेषकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि संशोधित फोटो वोटर पर्ची, प्रत्येक मतदान केन्द्र अवस्थिति पर मतदाता सहायता बूथ, प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर मतदाता फेसिलीटेशन पोस्टर तथा प्रत्येक परिवार में रंगीन मतदाता गाइड का सही समय से वितरण किए जाने के संबंध में अनुदेश निर्वाचन क्षेत्रों में लागू किया जाए।
6. निर्वाचन आयुक्त श्री ए.के. जोति, तथा निर्वाचन आयुक्त श्री ओ.पी. रावत ने जागरूकता प्रेषकों द्वारा जिले में स्वीप कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति से आयोग को अवगत कराने में निभायी जाने वाली उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दोहराया तथा प्रेषकों को निदेश दिया कि वे स्वीप कार्यनीति को समृद्ध बनाने में जिला निर्वाचन मशीनरी को गाइड करें ताकि निर्वाचन प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता बढ़ाई जा सके।



विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोग जागरूकता प्रेक्षकों को सम्बोधित करते हुए।

7. श्री उमेश सिन्हा, उप निर्वाचन आयुक्त, जो स्वीप कार्यक्रम को देख रहे हैं, ने प्रेक्षकों को उनकी भूमिका तथा दायित्वों के बारे में बताया तथा पांच राज्यों में किए जाने वाले विभिन्न स्वीप इन्टरवेंशनों के बारे में व्यापक जानकारी दी। निर्वाचन आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेक्षकों को मतदाता फेसिलीटेशन के संबंध में विभिन्न आयामों के बारे में भी अवगत करवाया।
8. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए पेड न्यूज तथा राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के संबंध में विभिन्न विनियामक अनुदेशों के साथ-साथ भारत निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता तथा मतदाता फेसिलीटेशन के संबंध में आयोग के विभिन्न अनुदेशों का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन का अवलोकन करने के लिए साठ प्रेक्षकों की तैनाती की जा रही है। प्रत्येक प्रेक्षक को दो जिलों को कवर करने के लिए तैनात किया गया है तथा वे विभिन्न पहलुओं पर आयोग को ऑनलाइन रिपोर्ट भेजेंगे। केन्द्रीय जागरूकता प्रेक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ **2013** में किया गया था तथा तब से सभी अनुवर्ती निर्वाचनों में इसे लागू किया गया है। वे प्रेक्षकों के प्रथम सेट में से हैं जिन्हें फील्ड में भेजा गया है।
9. गोवा तथा पंजाब के लिए जागरूकता प्रेक्षकों की तैनाती **9** जनवरी से आरंभ होगी एवं उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश के लिए **16** जनवरी से और मणिपुर के लिए फरवरी में आरंभ होगी।

(धीरेन्द्र ओझा)  
निदेशक